

November 6, 2025

National Stock Exchange of India Limited  
Exchange Plaza, 5<sup>th</sup> Floor  
Plot No.C/1, G-Block  
Bandra-Kurla Complex  
Bandra (E)  
MUMBAI – 400051, India

BSE Limited  
1<sup>st</sup> Floor, New Trading Ring  
Rotunda Building  
P.J. Towers, Dalal Street  
Fort  
MUMBAI – 400001, India

**Scrip Code : MSUMI**

**Scrip Code : 543498**

**Subject: Publication of unaudited Financial Results in Newspaper for the second quarter and half year ended September 30, 2025**

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of newspaper publication(s) dated November 6, 2025 in The Economics Times, Navbharat Times and Navashakti with respect to unaudited financial results for the second quarter and half year ended September 30, 2025.

The above is for your information and records.

Thanking You,

Yours truly  
For Motherson Sumi Wiring India Limited

Pooja Mehra  
Company Secretary

Encl(s): As above

Regd. Office:  
**Motherson Sumi Wiring India Limited**  
Unit – 705, C Wing, ONE BKC, G Block Bandra Kurla Complex,  
Bandra East Mumbai – 400051, Maharashtra (India)  
Tel: 022-61354800, Fax: 022-61354801  
CIN No.: L29306MH2020PLC341326  
E-mail: investorrelations@mswil.motherson.com  
website: www.mswil.motherson.com

Proud to be part of samvardhana **motherson** 



# US Services Gain in Oct Even as Jobs Stay Weak

Non-manufacturing PMI rises to 52.4; new orders received by services businesses surge

Reuters



**Washington:** US services sector activity picked up in October amid a solid increase in new orders, but subdued employment pointed to lacklustre labour market conditions against the backdrop of economic uncertainty stemming from tariffs on imports. The Institute for Supply Management said its nonmanufacturing purchasing managers index rose to 52.4 last month from 50 in September. Economists polled by Reuters had forecast the services PMI climbing to 50.8. The services sector accounts for more than two-thirds of US economic activity. At face value, the PMI would suggest solid economic activity at the start of the fourth quarter. But the longest government shutdown in history has caused an official economic data blackout, obscuring the economic view. The nonpartisan Congressional Bud-

get Office estimated the shutdown, now on its 36th day, could slice between 1 percentage point and 2 percentage points off gross domestic product in the fourth quarter. The CBO estimated most of the decline in GDP would be eventually recovered, but projected between \$7 billion and \$14 billion would not be. The third-quarter GDP report was due last month. The economy grew at a 3.8% annualised rate in the second quarter. The ISM survey's measure of new orders received by services businesses increased to 56.2 last month from 50.4 in September. But backlog orders plunged while exports remained depressed.

### EXPORT ORDERS WEAK

Weak export orders mirrored the findings in the ISM manufacturing survey on Monday, which noted "ongoing trade

friction". President Donald Trump's sweeping tariffs have caused tensions with trade partners, including China and Canada. The US Supreme Court on Wednesday will hear arguments on the legality of Trump's import duties. Trump has defended the tariffs as necessary to protect domestic manufacturing. With orders picking up, so did prices paid by services businesses for inputs. The pace of increase was, however, moderate, aligning with recent data that suggested a cooling in services inflation. The survey's measure of prices paid by businesses inched up to 70 from 69.4 in September. Rising orders did little to stimulate employment. The survey's gauge of services sector employment climbed to a still-subdued 48.2 from 47.2 in September. This measure has now contracted for five straight months. Economists say demand for labour has ebbed because of economic uncertainty, tariffs and companies embracing artificial intelligence. A sharp reduction in workers because of raids on undocumented immigrants is also weighing on the labour market. A survey from the Conference Board last month showed consumers' perceptions of the labour market remained downbeat in October. The unemployment rate was near a four-year high of 4.3% in August.

# US Envoy Flags UK Drug Pricing, Energy Costs

The US ambassador to Britain told a business gala there are "areas of concern" about the UK economy that could impede further ties between the countries. Warren Stephens said Wednesday that high energy costs and the UK's pricing on pharmaceuticals were holding back enterprise and investment, during a speech attended by British Trade Minister Chris Bryant. Energy was singled out as the "chief

obstacle" for deeper relations between the US and UK, with high costs threatening Britain's status as a "premier global economy." Stephens and President Donald Trump have both previously argued that Keir Starmer's Labour government should be allowing more drilling for North Sea oil and gas. "Every business I meet, in every sector, complains to me that energy costs make the UK an expensive, and difficult, place to do business," Stephens

told the British-American Business Gala Lunch at the Savoy hotel in London. The UK was the first major country to agree a trade deal with the White House earlier in the year, after Trump imposed higher tariffs across the world. However, several parts of the deal remained subject to further negotiation, and the UK is still trying to seal an agreement on medicine pricing and pharmaceutical exports. **Bloomberg**

# Putin Warns Russia May Commence Nuke Tests After Trump Threat



President Vladimir Putin said Russia has no plans to violate existing agreements on nuclear testing, but signalled that he's ready to order them if Donald Trump moves forward with threatened US atomic weapons trials. "Russia has always strictly adhered to its obligations under the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, and we have no plans to deviate from these commitments," Putin said Wednesday at a televised meeting of his Security Council. Moscow would "take appropriate retaliatory measures" if the US or another power conducted such a test, he said. After Defense Minister Andrey Belousov and army chief Valery Gerasimov called for preparations to resume testing in response to the US president's comments, Putin ordered his officials to seek more information about Washington's intentions and to set out proposals for "the possible commencement of work on nuclear weapons testing." Trump said last week that he's instructing the Pentagon to start testing US nuclear weapons "on an equal basis" in response to "other countries' testing programs." That followed Russia's announcements that Moscow had conducted trials of a nuclear-powered underwater drone and a nuclear-capable cruise missile. US Energy Secretary Chris Wright said on Sunday that he expected the actual tests would stop short of using warheads, and would instead be trials for the system. The US's last nuclear explosive test was in 1992, though it continues to test delivery systems. Russia, which has the world's largest nuclear arsenal, last conducted a publicly declared detonation test in 1990. — **Bloomberg**

# VW to Develop Own Chip for Advanced Driving Assist in China Push

Volkswagen AG plans to develop its own advanced semiconductor chip to power advanced driver assistance systems as automakers seek more control over their technology supply chains, which have been rolled by geopolitical tensions. The chips will be developed in China, where VW and other global carmakers have fallen behind local manufacturers like BYD Co. and Xiaomi Corp. and their tech-laden vehicles. The so-called System-on-Chip will be capable of powering Level 3 driver assistance, where a car can control itself under limited circumstances. "By designing and developing the System-on-Chip here in China, we are taking control of a key technology that will define the future of intelligent driving," VW Chairman Oliver Blume said at an event at China International Import Expo in Shanghai on Wednesday. The chip will be developed in conjunction with Carizon, a joint venture between VW's software-arm Cariad and Chinese tech firm Horizon Robotics. VW's foray into advanced chipmaking comes as automakers face the increased threat of production outages from ruptured supply



chains. Chip shortages during the Covid pandemic forced some manufacturers to reduce output or ship some cars without all their features. In recent weeks, carmakers including VW, BMW AG and Honda Motor Co. have faced a supply crunch after Beijing blocked Nexperia from exporting from its facilities in China in retaliation for the Dutch government seizing control of the Chinese-owned chipmaker. The new integrated chip is expected to be delivered within the next three to five years, and will also be key to VW's rollout of electric vehicles in China. The chip will have computing power of around 500 to 700 tera operations per second, processing data from cameras and sensors to "make driving safer, smoother and more intelligent," VW said. **Bloomberg**

# China Removes Levy on Some US Farm Goods, Lifts Export Curbs

Bloomberg

China announced it will remove retaliatory tariffs on some US farm products and lift export controls on an array of American firms, after Washington halved its fentanyl-related levies on Chinese goods. The country's finance ministry confirmed in a Wednesday notice it would end tariffs imposed March 4 on soybeans and other US agricultural products including corn, wheat, sorghum and chicken. That move — to take effect November 10 — was previously flagged in a White House fact sheet. Hours later, the commerce ministry said it would remove 15 American firms from an export control list while taking 10 other US companies off its unreliable entity list. Beijing will also scrap a ban on Illumina's exports of its DNA sequencer to China. The moves are part of a broader trade pact between US President Donald Trump and Chinese leader Xi Jinping that's set to last one year and has, for now, stabilised a turbulent relationship. Before their summit in South Korea last week, the two leaders had been locked in a cycle of tit-for-tat actions that threatened to upended global trade. Helping to cement that ceasefire, Trump on Tuesday signed a pair of executive orders that formalised lowering fentanyl-related levies on Chinese exports and extending a reprieve on higher US reciprocal tariffs. The detente between the world's biggest economies has boosted optimism about a revival in agricultural trade between the two nations, helping to push up global grain prices. Chicago soybean futures rose as much as 1% in Asian hours on Wednesday.

# Medical Device Makers Hit by Trump Tariffs

Europe's medtech giants warn of margin hits, share slumps, uncertainties

Bloomberg

Europe's medical device makers are feeling the pain from President Donald Trump's trade moves. Siemens Healthineers AG shares fell the most on record on Wednesday after the German company warned that it expects the impact from tariffs to roughly double to €400 million (\$460 million) in fiscal 2026. While the manufacturer sees good business prospects in the US, it's managing costs tightly and may "think about potential value-add shifts" to counter the duties, chief financial officer Jochen Schmitz told Bloomberg Television. Healthineers is not alone. Danish peer Ambu A/S on Wednesday said the levies will hold back its margin by around 2 percentage points. Royal Philips NV is projecting as much as €200 million tariff hit this year. Despite an EU-US deal to reduce the duties, uncertainty re-

mains, with Washington launching a probe into imports of medical devices in September that might lead to fresh levies. Healthineers shares fell as much as 13% in Frankfurt, the steepest intraday drop since the stock started trading in 2018. Ambu slumped as much as 19% in Copenhagen after its quarterly earnings missed estimates. Healthineers makes MRI and CT scanners in Germany and China. It ships those to countries including the US, its single biggest market where it generated

38% of its total sales in fiscal 2025 that ended in September. The tariff headwind was around €200 million in that period, Schmitz said. The company also produces blood-testing diagnostics equipment and provides cancer treatment technologies via its Varian division that's headquartered in the US. Healthineers is seeing comparable sales growth of 5% to 6% in fiscal 2026, it said earlier Wednesday. That's a "cautious guidance," Jefferies analysts led by Julien Dormois said in a note. Separately, Healthineers has looked into a potential sale of its diagnostics segment, which could be valued at more than €6 billion, Bloomberg reported in September. The transformation of the diagnostics division "is working well," Schmitz said, adding that Healthineers is giving the business "the freedom it needs to get back to where it deserves." He declined to confirm a potential sale.



# Google, Epic Games Call Truce in App Store Battle

Settlement comes as Google had begun making major court-ordered changes to its Play store to open it up to outside competition

Bloomberg

Google and Epic Games, maker of the popular Fortnite game, reached a settlement in their long-running antitrust fight over how developers distribute and monetise apps on Android phones, according to a court filing. The exact terms of the agreement weren't disclosed, but the accord comes as the Alphabet unit had already begun making major court-ordered changes to its Google Play store that would open it up to outside competition. It faces a series of deadlines over the coming months after failing to win relief from the US Supreme Court. The companies told the judge presiding over their five-year court battle that they want to modify the order he imposed on Google. A jury sided with Epic in December 2023 over its claims that Google engaged in anticompetitive conduct by paying phone manufacturers and popular app developers to exclusively use its app store. Following the verdict, US District Judge James Donato in San Francisco ruled last year that Google must be more accommodating to rivals. The judge banned preferential treatment for Google services on Android phones and required the company to let mobile app developers steer customers to lower payments outside of the Play Store. He also ordered Google to make its app catalog available to rival app stores so that they can better build a competing product. Under the settlement, much of what Donato ordered will still apply, with some key differences. That includes caps on commissions Google can charge for purchases outside the Play Store of 9% or 20%, depending on the type of transaction. The settlement also nixes app catalog access in favor of "registered app stores" that will be given equal treatment to the Play Store on devices using Google's Android operating system.

## Google Maps Navigation to get Gemini AI Boost



**New York:** Google Maps is heading in a new direction with artificial intelligence sitting in the passenger's seat.

Fuelled by Google's Gemini AI technology, the world's most popular navigation app will become a more conversational companion as part of a redesign announced Wednesday. The hands-free experience is meant to turn Google Maps into something more like an insightful passenger able to direct a driver to a destination while also providing nearby recommendations on places to eat, shop or sightsee, when asked for the advice. "No fumbling required — now you can just ask," Google promised in a blog post about the app makeover. **AP**

"At the court's prompting, the parties have engaged in several rounds of negotiations, over several months, involving their most senior executives," the two companies said in their joint court filing. "The parties have agreed to resolve their disputes with a settlement that both parties believe will advance the evolution of the Android platform." The settlement would also resolve related litigation between Epic and Samsung Electronics Co., according to the court filings. Sameer Samat, head of Android at Google, said in a post on X that the settlement will "focus on expanding developer choice and flexibility, lowering fees, and encouraging more competition all while keeping users safe." "Google has made an awesome proposal," Epic Chief Executive Officer Tim Sweeney said in his own post on X. "It genuinely doubles down on Android's original vision as an open platform."

The world is waiting to be cupped in your hands



When you catch the right learning, your career can also be a string of victories. **VCNow** brings you top-notch executive education programmes from India's finest B-schools—including several IIMs and XLRI—so that when you're chasing a dream on the job, you play for the top spot.

[www.learn.vcnow.in](http://www.learn.vcnow.in)  
8860876849



## MOTHERSON SUMI WIRING INDIA LIMITED

Regd. Office: Unit No. 705, C-Wing, ONE BKC, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai, Maharashtra-400051, India  
Tel No. 022-61354800, Fax: 022-61354801, Email: investorrelations@mswil.motherson.com, Website: www.mswil.motherson.com  
CIN - L29306MH2020PLC341326

### UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2025

| Particulars |  | Three months ended |             |             | Half year ended |             | INR in Crores |
|-------------|--|--------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|
|             |  | 30.09.2025         | 30.06.2025  | 30.09.2024  | 30.09.2025      | 30.09.2024  | Year ended    |
|             |  | (Unaudited)        | (Unaudited) | (Unaudited) | (Unaudited)     | (Unaudited) | 31.03.2025    |
|             |  |                    |             |             |                 |             | (Audited)     |
| 1           | Total income from operations   | 2,762.67           | 2,494.89    | 2,330.39    | 5,257.56        | 4,520.21    | 9,332.20      |
| 2           | Net Profit / (Loss) for the period before tax (before exceptional items)   | 221.00             | 189.63      | 202.72      | 410.63          | 401.08      | 805.41        |
| 3           | Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items)  | 221.00             | 189.63      | 202.72      | 410.63          | 401.08      | 805.41        |
| 4           | Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional items)   | 165.34             | 143.10      | 152.08      | 308.44          | 300.95      | 605.86        |
| 5           | Total comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)) | 165.67             | 133.15      | 149.97      | 298.82          | 294.41      | 596.23        |
| 6           | Paid up Equity Share Capital (of Re. 1/- each)   | 663.17             | 442.11      | 442.11      | 663.17          | 442.11      | 442.11        |
| 7           | Reserves (excluding Revaluation Reserve)   |                    |             |             |                 |             | 1,256.20      |
| 8           | Earnings Per Share (of Re. 1/- each) - Basic and Diluted (not annualised)  | 0.25               | 0.22        | 0.23        | 0.47            | 0.45        | 0.91          |

#### Note :

- a) The above is an extract of the detailed format of quarterly/half yearly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the LODR Regulations. The full format of the quarterly/half yearly financial results is available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com), [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.mswil.motherson.com](http://www.mswil.motherson.com)).



Place: Dubai  
Date: November 05, 2025

Proud to be part of samvardhana motherson 

By Order of the Board of Directors  
For Motherson Sumi Wiring India Limited  
-sd-  
**V. C. SEHGAL**  
Chairman







वकील: सारीका कोदे

जाहीर नोटीस

वसई येथील मा. श्रीमती. दोलम. सह दिवाणी न्यायाधिका, व.स्तर, वसई यांच्या न्यायालयात

पु. ता. ०४/११/२०२५

चौ.अ. क्र. १७४/२०२५

नि. क्र. ०५

MASTER KRISHNA PRASHANT KAWALE.

Age- 12 yrs, Occ- Education, through his mother, as a gurdian of minor,

Smt. Sangeeta Prashant Kawale, Age- 39 yrs. Occ- Housewife both are Residing at: Venus Road, Near Sakharam Nagar, Ulhasnagar, Thane - 421004.

....Applicant

V/S

No Other

.... Opponent

ज्याअर्थी वरील अर्जदार यांनी दिनांक १६/१०/२०२५ रोजी Smt. Minaxi Laxman Kawale या दि. २१/०९/२०२१ रोजी मयत झाल्या, तसेच Mr. Prashant Laxman Kawale हे दि. ०१/०८/२०२३ रोजी मयत झाले असून त्यांच्या मालमत्तेसंबंधी वारस दाखला (सक्सेशन प्रमाणपत्र) मिळणेसाठी या न्यायालयात चौकशी अर्ज क्रमांक १७४/२०२५ दाखल केला आहे.

SCHEDULE OF THE PROPERTY

The Life Insurance Corporation India, Nalasopara Branch.

| Sr. No. | Name/Bank Name  | Account No.  | Amont  |
|---------|---|--|--|
| A       | Late- Smt. Minaxi Laxman Kawale Life Insurance Corporation of India, Nalasopara | Policy No. 9291206165  | Total Amount Rs. 19,64,637/-                               |
| B       | Late- Prashant Laxman Kawale Union Bank Of India, Phulpada Road, Virar          | A/c No. 6822020 10012210 Monthly interest of LIC Policy No. 9 2 9 1 2 0 6 1 5 1, Nalasopara Branch | Amount 8840/- (With arrears deposited in the said account) |

ज्याअर्थी सक्सेशन सर्टीफिकेट मिळण्याकरिता या न्यायालयात चौ. अर्ज क्रमांक १७४/२०२५ दाखल केलेला आहे. ज्या कोणी इसमास त्यांचे कायदेशीर वारस, हक्क, हितसंबंध किंवा हरकत असेल त्यांनी हया न्यायालयात दिनांक ०४/१२/२०२५ रोजी सकाळी ११.०० वाजता किंवा ही जाहीर नोटीस प्रसिध्द झाले पासून एक महिन्याचे आत लेखी हरकत दाखल करावी. सदरहू वारस दाखला देण्याबाबत जर कोणत्याही इसमाची हरकत न आल्यास योग्य ते पुरावे व कागदपत्रे घेऊन अर्जदार ह्यांना वारस दाखला देण्यात येईल हयाची कृपया नोंद घेण्यात यावी.

आज दि.०४/११/२०२५ रोजी माझ्या सहनिशी व न्यायालयाच्या शिक्क्यानिशी दिली.

SEAL

हुकुमावरून, अधीक्षक

दिवाणी न्यायालय, व स्तर, वसई

जाहीर नोटीस

सर्व संबंधितांना या नोटीसद्वारे कळविण्यात येते की, गाव मौजे डोंगरी, जि. ठाणे येथील परडी क्र. ७/१, नवीन सी.टी.एस. क्र. ८३/४, एकूण क्षेत्रफळ ९.३ गुठे म्हणजेच एकूण १४०५.३ वार ही मिळकत माझे अशील श्री. रेनॉल्ड जाॅनी मेर्डोसा यांनी श्री. राजेश अनंत पाटील यांजकडून कायमस्वरूपी खरेदी करण्याचे ठरवले आहे, तरी सदर मिळकतीस कोणाही व्यक्तीचा, गहाण, दान, वारसा, वहिवाट, विस्वस्त, कुळ, विक्री, बोजा हयापैकी व इतर कुठल्याही प्रकारचा हितसंबंध असेल तर त्यांनी ही नोटीस प्रिसिध्द झाल्यापासून १४ दिवसांच्या आत आपल्याकडील लेखी पुराव्यासह गाला क्र. १, प्राईड ऑफ उत्तन, धावगी रोड, रॉयल स्कूलच्या पुढे, उत्तन, भाईंदर (प.), जि.-ठाणे, महाराष्ट्र- ४०११०६, या परत्यावर कळवावे. अन्यथा तसा हक्क, हितसंबंध नाही असे समजून व्यवहार पूर्ण केला जाईल.

सही/-

श्री. चंदन ज. जायसवाल

अॅडव्होकेट

ठिकाण-मिरा-भाईंदर दि.०६.११.२०२५

वकील - श्री. जॉर्ज फरागोज

जाहीर नोटीस

वसई येथील मा. श्री. एस. बी. वाळके, तिसरे सह दिवाणी न्यायाधिका, वरिष्ठ स्तर, वसई यांचे न्यायालयात नियमित दिवाणी दावा क्र. ३६४/२०१८ नि. क्र. : ३४

ने. ता. ०७/११/२०२५

....वादी

विरुध्द

....प्रतिवादी

श्री. परविंद विश्वकर्मा व इतर

प्रतिवादी क्र. १. श्री. परविंद विश्वकर्मा, रा. फ्लॅट नं. ००३, संस्कृती हाईट ब्रॉडवे थिएटर समोर, एव्हरशाईन, वसई पु. ता. वसई, जि. पालघर

ज्या अर्थी सदरचे वादी यांनी मे. तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश (व. स्तर) वसई यांच्या कोर्टात प्रस्तुतचा नियमित दिवाणी दावा क्र. ३६४/२०१८ दाखल केला आहे.

त्याअर्थी असे जाहीर करण्यात येते की सदरहू नियमित दिवाणी दावा मध्ये, प्रतिवादी क्र. १ यांच्यावर प्रत्यक्ष नोटीसीची बजावणी झालेली नसल्यामुळे ही जाहीर नोटीस प्रसिध्द केली आहेत तरी सदर प्रतिवादी क्र. १ अगर त्यांचे प्रतिनिधींनी त्यांची बाजू मांडण्यासाठी ही नोटीस प्रसिध्द झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत उपरनिर्दिष्ट प्रकरणी सामील होउन आपले लेखी म्हणणे नोंदवावे आणि तसेच या लेखावरून असे कळविण्यात येते की सदरहू मुदतीत आपले लेखी म्हणणे न आल्यास न्यायालय वादीचे म्हणणे ऐकून प्रस्तुतच्या अर्जात निकाल देण्यात देईल याची संबंधीतांनी नोंद घ्यावी. सदर प्रकरणी पुढील तारीख ०७/११/२०२५ रोजी नेमण्यात आली आहे. आज दि.०३/०६/२०२५ रोजी माझ्या सहनिशी व न्यायालयाच्या शिक्क्यानिशी दिली.

SEAL

हुकुमावरून, अधीक्षक

दिवाणी न्यायालय व. स्तर, वसई

जाहीर सूचना

ही सूचना सर्वसामान्य जनतेस कळविण्यात येते की अक्सिस बँक लिमिटेड, न्याची स्थापना कंपनीज अ‍ॅक्ट, १९५६ अंतर्गत झाली असून न्याचा सीआयए क्र. एल६५१०जी३११३पीएलसी-२०७६९ असा आहे आणि जी बँकिंग कंपनी बँकिंग कंपनीज अ‍ॅक्ट, १९५९ च्या अर्बाने "बँकिंग कंपनी" म्हणून ओळखली जाते, हिचे नोंदणीकृत कार्यालय त्रिगुल, इरा भजला, समर्थेश्वर मंदिरासमोर, लॉ गार्डन, एलिसाब्रिज, अहमदाबाद, गुजरात-३८०००९ येथे आहे. सदर बँक आमचे अगिल श्री. दिनेश दत्ताजी यांच्याकडे घाली नमूद केलेल्या परिशिष्टामध्ये वर्णन केलेल्या इमारतीतील मालमतेतील शेअर्स आणि पॉसर्स (यानंतर "सदर मालमत्ता" म्हणून संदर्भित) हस्तांतरित करण्यास इच्छुक आहे.

सदर मालमतेबाबत किंवा कोणत्याही भागा संबंधात किंवा विरोधात कोणत्याही व्यक्तीस, संस्था, बँका, वित्तीय संस्था आणि/किंवा विरार-बँकिंग कंपन्यांना हक्क, नामाधिकार, स्वारस्य, दावा, मागणी किंवा लाभाचा अधिकार असल्यास, जसे की विक्री, हस्तांतरण, अभिहस्तांकन, अदलबदल, वाटप पत्र, समजोत्याच्या झापन, टर्नशीट्स, लेखन, स्मी, क्षतीपूर्ती, तराण दस्तावेज/व्यवस्था भांड्येदटा, गहाण, प्रभार, लीज, सब-लीज, ताबा, उपग्राह, अडथळा, देणगी, वारसा, करार, हक्क, कारारामा, रस्ता हक्क, सुविधा, विकास हक्क, भेटवस्तू, करार, मृत्युपत्र, देणभाल, ताबा, पॅट्रिझनचा अधिकार, लिस पॅडन्स, पुरस्कार, हुकूम, मनाई आदेश, न्यायालय/न्यायाधिकरणाचा आदेश, लवाद पुरस्कार इत्यादी मागाने कोणताही दावा असल्यास, (यानंतर "दावा") त्यांनी संबंधित पुरावे यांमुन घाली सही करणाऱ्यांना लेखी स्वरूपात कळवावे.

सदर कळविणे mahimtura.law@gmail.com या ईमेलवर किंवा आमच्या कार्यालयाच्या पत्त्यावर- १ला भजला, हाजी कसाम विहिंडग, ६६, टॅमपॅड लेन, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१ येथे वा जाहिरातीच्या प्रसिद्धीपासून ८ (आठ) दिवसांच्या आत करावे. निषर्हित कालावधीत असा कोणताही दावा प्राप्त न झाल्यास, असा कोणताही दावा अस्तित्वात नाही असे समजले जाईल. तसेच, जर दावा अस्तित्वात असेल तरीही दावा करणाऱ्याने तो रद्द व त्याग केलेला आहे असे गृहित धरले जाईल आणि आमच्या अगिलांवर तो दावा बाध्यकारी राहणार नाही.

जर नमूद केलेल्या मालमतेचा तपशील

शेअर प्रमाणपत्र क्र. ००४ अंतर्गत पाच शेअर्स क्र. ०२० ते ०२५, बेनहूर को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड, जी महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीज अ‍ॅक्ट, १९६० अंतर्गत नोंदणीकृत आहे, यांनी जारी केलेले आहेत. या शेअर्सशी संबंधित मालमत्ता म्हणजे फ्लॅट क्र. २०४ आणि २०५, ज्याचे क्षेत्रफळ सुमारे २००० चौ. फु. (कार्पेट क्षेत्रफळ) असून हे पर्लेस बेनहूर इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावर आहेत, तसेच कॅंडस्टुल सर्व्हे क्र. २१८ (मलबार हिल विभाग), नारायण दामोदकर रोड, मलबार हिल, मुंबई-४०० ००६ येथे दोन कार पार्किंग रिकेसेसह स्थित आहेत.

दिनांक : ०६ नोव्हेंबर २०२५

सही/-

महिमनुरा अँड कंपनी

वकील व सॉलिसिटर्स

मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड

नॉद. कार्यालय: युनित क्र. ७०५, सी-विंग, वन बीकेसी, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, वांद्रे पूर्व, मुंबई, महाराष्ट्र-४०००५१, भारत

दूर क्र. ०२२-६१३५४८००, फॅक्स: ०२२-६१३५४८०१, ईमेल: investorrelations@mswil.motherson.com, वेबसाइट: www.mswil.motherson.com

सीआयएन – एल२९३०६एमएच२०२०पीएलसी३४१३२६

३० सप्टेंबर, २०२५ रोजी संपलेली तिमाही आणि अर्ध वर्षाकरिता अलेखापरिक्षित वित्तीय निष्कर्ष

|       |   | संपलेले तीन महिने |                 |                 | संपलेले अर्ध वर्ष |                | भा. रु. कोटीत |
|-------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|---------------|
| तपशील |   | ३०.०९.२०२५        | ३०.०६.२०२५      | ३०.०९.२०२४      | ३०.०९.२०२५        | ३०.०९.२०२४     | ३१.०३.२०२५    |
|       |   |                   |                 |                 |                   |                |               |
|       | (अलेखापरिक्षित)   | (अलेखापरिक्षित)   | (अलेखापरिक्षित) | (अलेखापरिक्षित) | (अलेखापरिक्षित)   | (लेखापरिक्षित) |               |
| १     | प्रवर्तनातून एकूण उत्पन्न   | २,७६२.६७          | २,४९४.८९        | २,३३०.३९        | ५,२५७.५६          | ४,५२०.२१       | ९,३३२.२०      |
| २     | करपूर्व कालावधीकरिता निव्वळ नफा/(तोटा) (अपवादात्मक बाबीपूर्व)   | २२१.००            | १८९.६३          | २०२.७२          | ४१०.६३            | ४०१.०८         | ८०५.४१        |
| ३     | करपूर्व कालावधीकरिता निव्वळ नफा/(तोटा) (अपवादात्मक बाबीपरश्चात)   | २२१.००            | १८९.६३          | २०२.७२          | ४१०.६३            | ४०१.०८         | ८०५.४१        |
| ४     | करपश्चात कालावधीकरिता निव्वळ नफा/(तोटा) (अपवादात्मक बाबीपरश्चात)  | १६५.३४            | १४३.१०          | १५२.०८          | ३०८.४४            | ३००.९५         | ६०५.८६        |
| ५     | कालावधीकरिता एकूण सर्वसमावेशक उत्पन्न (कालावधीकरिता नफा/ (तोटा) (करपश्चात) आणि इतर सर्वसमावेशक उत्पन्न (करपश्चात) समाविष्ट) | १६५.६७            | १३३.१५          | १४९.९७          | २९८.८२            | २९४.४१         | ५९६.२३        |
| ६     | भरणा झालेले समभाग भांडवल (प्रत्येकी रु. १/- चे)   | ६६३.१७            | ४४२.११          | ४४२.११          | ६६३.१७            | ४४२.११         | ४४२.११        |
| ७     | राखीव (पुनर्मूल्यांकित राखीव वागळू)   |                   |                 |                 |                   |                | १,२५६.२०      |
| ८     | प्रति समभाग प्रामी (प्रत्येकी रु. १/- च्या) – मूलभूत आणि सौम्यिकृत – (अवार्षिक)   | ०.२५              | ०.२२            | ०.२३            | ०.४७              | ०.४५           | ०.९१          |

टीपा:

ए) एलओडीआर नियमावलीच्या नियम ३३ अन्वये शेअर बाजारात दाखल केलेल्या तिमाही/अर्ध वर्षासाठी वित्तीय निकालाचे तपशीलवार विवरणाचा एक उतारा वर दिला आहे. तिमाही/अर्धवार्षिक वित्तीय निकालाचे संपूर्ण विवरण शेअर बाजार आणि सूचीबध्द संस्थेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com), [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) आणि [www.mswil.motherson.com](http://www.mswil.motherson.com))



स्थळ: दुबई

तारीख: नोव्हेंबर ०५, २०२५

संचालक मंडळाच्या आदेशाद्वारे

मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड करिता

सही/-

व्ही. सी. सेहगल

अध्यक्ष

Proud to be part of samvardhana

motherson

BLUE STAR LIMITED

Registered Office: Kasturi Buildings, Mohan T. Advani Chowk, Jamshedji Tata Road, Mumbai - 400 020.

CIN NO.: L28920MH1949PLC006870, Telephone No.: +91 22 6665 4000, Fax No.: +91 22 6665 4152

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2025

₹ in Crores

| SR. NO. | PARTICULARS  | QUARTER ENDED (UNAUDITED) 30.09.2025 | QUARTER ENDED (UNAUDITED) 30.09.2024 | HALF YEAR ENDED (UNAUDITED) 30.09.2025 | YEAR ENDED (AUDITED) 31.03.2025 |
|---------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|
| 1       | Total Income from Operations   | 2,432.38                             | 2,294.47                             | 5,430.70                               | 12,042.65                       |
| 2       | Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)  | 132.17                               | 131.10                               | 295.40                                 | 772.42                          |
| 3       | Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)   | 132.17                               | 131.10                               | 295.40                                 | 784.93                          |
| 4       | Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)  | 98.78                                | 96.06                                | 219.60                                 | 591.28                          |
| 5       | Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | 105.34                               | 98.67                                | 227.93                                 | 594.84                          |
| 6       | Equity Share Capital (Face Value of the share - ₹ 2/- each)  | 41.12                                | 41.12                                | 41.12                                  | 41.12                           |
| 7       | Reserves excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous accounting year   |                                      |                                      |  | 3,023.90                        |
| 8       | Earnings per share (EPS) (in ₹) (not annualised for quarter and half year ended)   |                                      |                                      |  |                                 |
|         | a) Basic   | 4.80                                 | 4.67                                 | 10.68                                  | 28.76                           |
|         | b) Diluted   | 4.80                                 | 4.67                                 | 10.68                                  | 28.76                           |
| 9       | Net Worth  | 3,110.96                             | 2,732.59                             | 3,110.96                               | 3,064.42                        |
| 10      | Debt Equity Ratio  | 0.27                                 | 0.09                                 | 0.27                                   | 0.07                            |
| 11      | Capital Redemption Reserve   | 2.34                                 | 2.34                                 | 2.34                                   | 2.34                            |
| 12      | Debt Service Coverage Ratio (DSCR) (not annualised for quarter and half year ended)  | 15.63                                | 58.13                                | 27.28                                  | 33.37                           |
| 13      | Interest Service Coverage Ratio (ISCR) (not annualised for quarter and half year ended)  | 15.63                                | 58.13                                | 27.28                                  | 33.37                           |
| 14      | Current Ratio  | 1.28                                 | 1.34                                 | 1.28                                   | 1.28                            |
| 15      | Current liability ratio  | 0.95                                 | 0.95                                 | 0.95                                   | 0.95                            |
| 16      | Bad debts to account receivable ratio  | -                                    | -                                    | -                                      | 0.01                            |
| 17      | Total debt to total assets   | 0.11                                 | 0.04                                 | 0.11                                   | 0.02                            |
| 18      | Debtors turnover (No. of days)   | 55.98                                | 54.94                                | 57.54                                  | 59.65                           |
| 19      | Inventory turnover (No. of days)   | 118.33                               | 80.14                                | 102.50                                 | 71.52                           |
| 20      | Operating margin (%)   | 7.57%                                | 6.56%                                | 7.09%                                  | 7.32%                           |
| 21      | Net profit margin (%)  | 4.06%                                | 4.19%                                | 4.04%                                  | 4.91%                           |

Notes:

1 Blue Star Engineering & Electronics Limited, wholly owned subsidiary of Blue Star Limited ("the Holding Company") had sold property, which resulted in book profit of ₹ 12.51 crores (₹ 10.37 Crores net of tax) and the same was reported as exceptional income in the financial results for the year ended March 31, 2025.

2 The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended). The full format of the quarterly results is available on the website of the Stock Exchange ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) and ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)), and on Company's website ([www.bluestarindia.com](http://www.bluestarindia.com)).The same can be accessed by scanning the QR code provided.

3 The specified items of the standalone financial results of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2025 are given below:

| SR. NO. | PARTICULARS                | STANDALONE                           |                                      |  |                                 |
|---------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|
|         |                            | QUARTER ENDED (UNAUDITED) 30.09.2025 | QUARTER ENDED (UNAUDITED) 30.09.2024 | HALF YEAR ENDED (UNAUDITED) 30.09.2025 | YEAR ENDED (AUDITED) 31.03.2025 |
|         |                            | 1                                    | Revenue from operations              | 2,294.52                               | 2,126.00                        |
| 2       | Profit before tax          | 94.46                                | 113.99                               | 241.13                                 | 649.93                          |
| 3       | Profit after tax           | 69.91                                | 84.66                                | 178.47                                 | 484.90                          |
| 4       | Total comprehensive income | 70.16                                | 83.17                                | 178.31                                 | 483.33                          |

For BLUE STAR LIMITED

Vir S. Advani

Chairman and Managing Director

(DIN: 01571278)